

# COMPUCOM

## Software Limited

IT: 14-15 EPIP, Sitapura, Jaipur –302022  
(Rajasthan) (India)  
Tel. 91-141-2770131, 5115901-02  
Fax: 91-141-2770335, 5115905  
Email: [fin@compucom.co.in](mailto:fin@compucom.co.in)  
CIN: L72200RJ1995PLC009798

No.: CSL/BSE/NSE/CSE/23-24/

Date: - 29.08.2023

1) BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street, Mumbai-400001.  
Email- [corp.compliance@bseindia.com](mailto:corp.compliance@bseindia.com)  
Stock Code: 532339

(BY BSE LISTING CENTRE)

2) National Stock Exchange of India Ltd

Exchange Plaza, C-1, Block G,  
Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400051.  
Email- [cmllist@nse.co.in](mailto:cmllist@nse.co.in)  
Stock Code: COMPUSOFT

(BY NSE NEAPS)

3) The Calcutta Stock Exchange Limited

7, Lyons Range, Dalhousie  
Kolkata: 700001  
West Bengal  
Email- [listing@csl-india.com](mailto:listing@csl-india.com)  
Stock Code: 13335

(BY E-MAIL)

**Sub: Submission of newspaper Notice for 29<sup>th</sup> Annual General Meeting to be held through video conferencing or other audio-visual means**

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, please find enclosed copy of Notice for 29<sup>th</sup> Annual General Meeting to be held through video conferencing or other audio-visual means published by the Company in Financial Express (English in all editions) and Nafa Nuksan (Hindi) Newspaper on 29<sup>th</sup> August 2023.

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours Sincerely,

**For Compucom Software Limited**

(Swati Jain)

Company Secretary & Compliance Officer  
FCS: 8728

Encl: A/a



## COMPUCOM SOFTWARE LIMITED

IT-14-15 EPIP, Sitapura, Jaipur-302022 (Rajasthan) (India)  
CIN: L72200RJ1995PLC008798 E. Tel: 0141-2770131  
Software Limited Email: investor@compucom.co.in, Website: www.compucom.co.in

### NOTICE OF THE 29th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 29th (Twenty Ninth) Annual General Meeting ("AGM") of the Company is scheduled to be held on Wednesday, September 20, 2023, at 04:00 P.M. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the business as listed in the Notice of AGM.

Notice of the AGM setting out the Resolutions proposed to be transacted thereat along with the Annual Report for the Financial Year 2022-23, have also been dispatched to the Members in electronic mode on August 28, 2023 whose e-mail ID's are registered with the Company or the Depository Participant(s) on August 25, 2023 in accordance with circular no. 14/2020 dated 08.04.2020, 17/2020 dated 13.04.2020, 20/2020 dated 05.05.2020, 02/2021 dated 13.1.2021, 19/2021 dated 08.12.2021, 21/2021 dated 14.12.2021, 02/2022 dated 05.05.2022 and 10/2022 dated 28.12.2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12.05.2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15.01.2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62, dated 13.05.2022 and SEBI/HO/CFD/POD-2/P/2023/4, dated 05.01.2023 issued by the Securities Exchange Board of India (SEBI) (all circulars hereinafter collectively referred to as "Circulars"). Notice and the said documents are available at the company's website at <https://compucom.co.in/mdocs-posts/annual-report-2022-23/> and website of stock exchanges i.e. BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Ltd at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and The Calcutta Stock Exchange Limited at [www.cse-india.com](http://www.cse-india.com) and on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com). No physical copies have been dispatched to the members. The documents are also available for inspection at the Registered Office of the Company on any working day between 11.30 A.M. to 12.30 P.M. or through electronic means, till the date of 29th AGM. The company completed dispatch of Annual Report on August 28, 2023.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, September 14, 2023 to Wednesday, September 20, 2023 (both days inclusive) for the purpose of the 29th AGM & deciding the entitlement of dividend if declared for the financial year ended on 31st March, 2023.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Companies Secretaries of India your company is pleased to provide remote e-voting facility to its Members to exercise their right to vote on the Resolutions proposed to be transacted at the 29th AGM. The Company has arranged remote e-voting facility through Central Depository Services (India) Limited at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) and the business may be transacted through voting by electronic means. Members who wish to cast their vote through Remote E-Voting or e-Voting at the time of AGM are requested to login to the e-voting system of Central Depository Services India Limited (CDSL) at <https://www.evotingindia.com> under 'Shareholder/Member - Login' by using their remote e-voter ID and password. Instruction related to user ID and Password are provided in the Notice of AGM.

A Member whose name appears in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date i.e. Wednesday, September 13, 2023 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting at the AGM and members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. Members who cast their vote through remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

Any person who becomes Member of the company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares on cut-off date i.e. September 13, 2023, if already registered with CDSL, can use his/her existing user ID and password otherwise follow the detailed procedure mentioned in Notice of AGM available at Company's website [www.compucom.co.in](http://www.compucom.co.in) or may obtain the login ID and password by sending a request at [helpdesk.evoting@cdsindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com) or to the Company's Registrar, M/s MCS Share Transfer Agent Limited at [admin@mcsregistrars.com](mailto:admin@mcsregistrars.com).

Remote e-voting facility shall commence on Saturday, September 16, 2023 at 9:00 A.M. and will end on Tuesday, September 19, 2023 at 5:00 P.M. The remote e-voting will be disabled by CDSL after the said date and time.

The Company has appointed CS Manoj Maheshwari, FCS 3355 Practising Company Secretary as the scrutinizer and failing him, CS Priyanka Agarwal, FCS 11138 Practising Company Secretary as alternate scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and e-voting at AGM in fair and transparent manner.

In case of any queries/grievances relating to e-voting process, the Members may contact at [helpdesk.evoting@cdsindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com), or contact Mr. Mehboob Lakhani, Manager (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi, Manager (022-23054542) of Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatil Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai-400013.

For Compucom Software Limited  
Sd/-  
Place: Jaipur Swati Jain  
Date: 28.08.2023 Company Secretary & Compliance Officer (FCS: 8728)

## DIVYASHAKTI LIMITED

(Formerly known as Divyashakti Granites Limited)  
CIN: L99999TG1991PLC012764  
Regd. Office: Flat No.1-301 to 304, Divyashakti Complex, 7-1-58, Ameerpet, Hyderabad - 500 016. Tel: 91 40 23730240; Fax 91 40 23730013  
Email ID: [info@divyashakti.com](mailto:info@divyashakti.com) Website [www.divyashakti.com](http://www.divyashakti.com)

### NOTICE ANNUAL GENERAL MEETING, E VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 32<sup>nd</sup> Annual General Meeting of DIVYASHAKTI LIMITED (Formerly Divyashakti Granites Limited), will be held on Thursday, 21<sup>st</sup> September, 2023 at 11.00 a.m. through video conferencing (VC)/other Audio-Visual means (OAVM) situation to transact the business as set out in the Notice of AGM.

The AGM will be convened in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder (The Act) provisions of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 ("Listing Regulation"), the provisions of General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021, General Circular No. 20/2021 dated December 08, 2021, General Circular No. 03/2022 dated May 05, 2022, General Circular No. 11/2022 dated December 28, 2022, issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12<sup>th</sup> May 2020 issued by SEBI.

In compliance with the above-mentioned provisions, the Notice of the AGM and the Annual Report have been emailed only to those Members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s) owing to the difficulties in dispatching physical copies of the Annual Report. The

**OSBI**  
IT-ePay&PG Department, SBGITC, Belapur, Sector 11,  
C.B.D. Belapur, Navi Mumbai - 400614

**CORRIGENDUM - I**

RFP NO. SBI/GITC/ePay&PG/2023/2024/1027 Dated: 07.08.2023  
Please refer RFP for Procurement of Access Control Server (ACS) or Issuer Authentication Server (IAS) Services for State Bank Debit And Prepaid Cards, dated 07.08.2023. Corrigendum-I and Bank's response to Pre-Bid Queries are uploaded and can be accessed under Procurement News on the Bank's website <https://bank.sbi>.

Place: Navi Mumbai Sd/-  
Date: 29.08.2023 Dy. General Manager (IT-ePay&PG)

**eMudhra Limited**  
CIN: L72900KA2008PLC060368  
Registered Office: eMudhra Digital Campus, No. 12-P1-A & 12-P1-B  
Bangalore IT Park Industrial Area, B K Palaya, North, Jala Hobli  
Bengaluru - 562 149, Karnataka, India, Telephone: 080 - 4848 4001  
Website: [www.emudhra.com](http://www.emudhra.com) Email: [companysecretary@emudhra.com](mailto:companysecretary@emudhra.com)

### NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

The Extra-Ordinary General Meeting (EGM) of the Members of eMudhra Limited, will be held on Friday, September 22, 2023 at 11:00 A.M. IST, through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) without the physical presence of the members at a common venue in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 and General Circular 11/2022 dated December 28, 2022 read with No. 14/2020, No. 17/2020, No. 20/2020, No. 02/2021, No. 19/2021 and No. 21/2021 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular dated January 15, 2021 read with Circular dated May 12, 2020, issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Collectively referred to as "Circulars") to transact the business set out in the Notice calling the EGM.

In compliance with the relevant circulars, electronic copies of the Notice of EGM will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company or the Depository Participant(s). The Notice of EGM will also be available on the website of the Company at [www.emudhra.com](http://www.emudhra.com) and also on the websites of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), respectively. The Notice of EGM will also be available on the website of Link Intime India Private Limited ("LIPL") i.e., <https://instavote.linkintime.co.in/>.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) and the MCA and SEBI Circulars, the Company is holding its Extra-Ordinary General Meeting (EGM) through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means ("OAVM"). For the said purpose the Company has engaged the service of M/s. Link Intime India Private Limited for conducting EGM through VC/OAVM. Further, M/s. Link Intime India Private Limited has also been engaged for facilitating e-voting to enable the members to cast their votes electronically using remote e-voting system as well as e-voting during the EGM. The information and instructions for Members attending the EGM through VC/OAVM are explained in Notes to the Notice of EGM. Members attending the EGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the Act.

A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e., Friday, September 15, 2023, shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting, participation in the EGM through VC/OAVM or e-voting at the EGM.

The remote e-voting facility will be available during the following voting period:

Commencement of remote e-voting : 9:00 a.m. on Tuesday, September 19, 2023  
End of remote e-voting : 5:00 p.m. on Thursday, September 21, 2023

The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by M/s. Link Intime India Private Limited upon expiry of the aforesaid period.

The facility for electronic voting system, shall also be made available at the EGM. The Members attending the EGM, who have not casted their votes through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be able to exercise their voting rights at the EGM. The Members who have already casted their votes through remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their votes again at the EGM.

To enable participation in the remote e-voting process by those shareholders, to whom the Notice of EGM could not be dispatched, the Company has made appropriate arrangements with its Registrar & Transfer Agent for registration of email addresses in terms of the relevant circulars. Shareholders holding shares in dematerialized mode, are requested to register their email addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their depository participants, shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish details to the company's Registrar & Transfer Agent, M/s. Link Intime India Private Limited.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and Instavote e-voting manual for Shareholders available at [instavote@linkintime.com](mailto:instavote@linkintime.com) or write an e-mail to [enotices@linkintime.com](mailto:enotices@linkintime.com) or in call on 022-49186000.

Date: August 28, 2023  
Place: Bengaluru

By the Order of the Board of Directors of  
**eMudhra Limited**  
Sd/-  
V Srinivasan  
Executive Chairman  
(DIN: 00640646)

**हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड**  
**HINDUSTAN COPPER LIMITED**  
(A Government of India Enterprise)

### सदस्यों के सूचनाई Notice to Members

Notice is hereby given that 56th Annual General Meeting (AGM) of Hindustan Copper Ltd (HCL) will be held on Friday, 29.09.2023 at 11:00 AM, IST through Video Conferencing /Other Audio Visual Means (VC/OAVM) in compliance with applicable provisions of Companies Act, 2013 (the Act) and Rules notified there under read with Ministry of Corporate Affairs Circulars dated 08.04.2020, 13.04.2020, 05.05.2020, 13.01.2021, 14.02.2021, 05.05.2022, 10.06.2022, 17.07.2022, 02.08.2022, 08.12.2021, 21.12.2021, 02.02.2022, 05.05.2022 and 10.12.2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12<sup>th</sup> May 2020 issued by SEBI.

**LORDS ISHWAR HOTELS LIMITED**  
CIN: L55100GJ1985PLC008284  
Hotel Revival, Near Sayaji Garden, Kala Ghoda Chowk, City Road, Baroda - 390 002, Gujarat (India)  
Tel: 0263 2795455 Email: [info@lordsishtar.com](mailto:info@lordsishtar.com), [www.lordsishwar.com](http://www.lordsishwar.com)

### NOTICE OF 37<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE & REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 37<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, the 21<sup>st</sup> day of September, 2023 at 11:00 a.m. through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business set out in the Notice of AGM.

Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the year 2022-23 have been sent to the shareholders whose email IDs are registered with the Company/Depository Participants. The same is also posted on the Company's website [www.lordsishwar.com](http://www.lordsishwar.com).

Further, Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rules thereon and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Book of the Company will remain closed from 15<sup>th</sup> September, 2023 to 21<sup>st</sup> September, 2023 (both days inclusive).

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members the facility of remote e-voting to cast his/her vote electronically in respect of the business set forth in the Notice and the following details are given below:

(a) The remote e-voting shall commence at 9.00 a.m. on 18<sup>th</sup> September, 2023  
(b) The remote e-voting shall end at 5.00 p.m. on 20<sup>th</sup> September, 2023  
(c) The cut-off date is 14<sup>th</sup> September, 2023 i.e. the date for determining the eligibility to vote by electronic means or in the AGM;

(d) Any person who acquires shares of the company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date, may obtain login ID & password by sending an email to [vote@bigshareonline.com](mailto:vote@bigshareonline.com) and if already registered with Bigshare Services Pvt. Ltd, then existing user ID & password can be used for remote e-voting;

(e) (i) Remote e-voting shall not be allowed beyond 05.00 p.m. on 20<sup>th</sup> September, 2023;

(ii) The facility for voting by remote e-voting shall be made available at the AGM for all those members who are present during the meeting through VC/OAVM but not cast their votes by availing the remote e-voting facility. The remote e-voting module during the AGM shall be disabled by NSDL for voting 15 minutes after the conclusion of the Meeting;

(iii) A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the above cut-off date, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting during the AGM;

(f) The Notice of AGM is also available on the Company's website [www.lordsishwar.com](http://www.lordsishwar.com) and website of Bigshare Services Pvt. Ltd. [vote.bigshareonline.com](http://vote.bigshareonline.com); and

(g) Contact details of the person responsible to address the grievances connected with the remote e-voting: Mr. Prasad Madwale, Deputy General Manager, Bigshare Services Pvt. Ltd. Email: [vote@bigshareonline.com](mailto:vote@bigshareonline.com), Contact: 1800 22 54 22

For e-voting instructions in detail, please go through the Notes to the AGM Notice sent to you.

By Order of Board of Directors  
For Lords Ishwar Hotels Limited  
**Darshana Laddha**  
Company Secretary

Place: Vadodara  
Date: 28<sup>th</sup> August, 2023

**LUMAX** **Lumax Industries Limited** **DK JAIN GROUP**  
CIN: L74899DL1981PLC012804  
Regd. Office: 2<sup>nd</sup> Floor, Harbans Bhawan-II, Commercial Complex,  
Nangal Raya, New Delhi - 110046 Phone: 011 49857832  
Email: [lumaxshare@lumaxmail.com](mailto:lumaxshare@lumaxmail.com)  
Website: [www.lumaxworld.in/lumaxindustries](http://www.lumaxworld.in/lumaxindustries)

### NOTICE OF POSTAL BALLOT TO THE MEMBERS

NOTICE is hereby given that pursuant to the provisions of Sections 108, 110 and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act"), read with Rule 20 & 22 of the Companies (Management and Administration) Regulations, 2014, as amended ("the Rules"), General Circular No. 11/2022 dated December 28, 2022 and other relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") from time to time ("MCA Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force and Secretarial Standard - 2 on General Meeting (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI), and other applicable laws and regulations, if any, the Company has on Monday, August 28, 2023, completed the dispatch of the Postal Ballot Notice through e-mail only to Members whose names appeared in the Register of Members/List of Beneficial Owners as on Friday, August 25, 2023 (the "cut-off date") and whose email addresses are registered in the records of Depositories viz. National Securities Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") and/or with the Company and/or with the Company's Registrar and Share Transfer Agent viz. KFin Technologies Ltd ("KFIN"), to seek consent/approval of the Members of Lumax Industries Limited ("Company") for the resolution mentioned in the Postal Ballot Notice.

In accordance with the abovementioned MCA Circulars, physical copies of the Postal Ballot Notice along with the Postal Ballot Form and pre-paid Business Reply Envelope will not be sent to the Members. The communication of assent/dissent of the Members would take place through the remote e-voting system ("E-Voting") only. Any person, who is not a member as on the close of business hours of the cut-off date, should treat this notice for information purposes only.

The Company has engaged the services of KFIN for providing the remote e-voting facility to the Members. The detailed procedure of E-Voting is enumerated in the Notes to the Postal Ballot Notice.

The Board of Directors of the Company, by resolution dated August 09, 2023 has appointed Mr. Maneesh Gupta, Practising Company Secretary (FCS 4982), as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot through E-voting process in a fair and transparent manner.

All members are, therefore, informed that:  
i. Date of completion of dispatch/sending of Notice of Postal Ballot is



# नेशनल • इंटरनेशनल

## दिग्गज वैश्विक रणनीतिक दिखा रहे हैं रुचि : अंबानी

के वेंचर लिमिटेड (आरआरवीएल) में 8,278 करोड़ रुपये (एक अरब डॉलर) का निवेश कर करीब एक प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है।

अंबानी ने कहा कि इसका मूल्यांकन तीन साल से भी कम समय में दोगुना हो गया है। अंबानी ने कहा, “केवल संदर्भ के लिए बात करें, तो सितंबर, 2020 में हमारे कोष जुटाने के दौरान, हमारे खुदरा कारोबार का मूल्यांकन 4.28 लाख करोड़ रुपये था। तीन साल से भी कम समय में कोविड-19 वैश्विक महामारी के बावजूद इसका मूल्यांकन लगभग दोगुना हो गया है।” उन्होंने कहा, “इस मूल्यांकन के आधार पर अगर रिलायंस रिटेल सूचीबद्ध होती, तो यह भारत में शीर्ष चार कंपनियों में और वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 खुदरा विक्रेताओं में शामिल हो जाती।”

## साथ प्रस्तावित करार में दौं पर व्यापार बाधाओं में चाहता है ईएफटीए

ईएफटीए। चार देशों का समूह ईएफटीए प्रस्तावित मुक्त व्यापार करार लिए मशीन टूल्स, उन्नत रसायन, नॉर्वे और आइसलैंड की मछली व्यापार बाधाओं में कमी चाहता है। आर्थिक मामलों की मंत्री हेलेन ग्राने ने यह बात कही है।

वहा कि भारत के साथ ईएफटीए में और बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे क्षेत्रों में एक महत्वाकांक्षी और चाहता है। भारत और यूरोपीय मुक्त (ईएफटीए) के देश... आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड - दोनों क्षेत्रों के संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से त्रिभुज भागीदारी समझौते (टीईपीए) कर रहे हैं। समझौते पर बातचीत पर जनवरी, 2008 में शुरू हुई थी। दौरे की बातचीत हुई थी। अक्टूबर, 2010 दोबारा शुरू होने के बाद कई दौर की है। अर्टिडा ने कहा, “वस्तुओं के क्षेत्र में भारत ईएफटीए देशों के कई शूलक लागू करता है। हम स्पष्ट रूप से पार्यता कमी की उम्मीद कर रहे हैं। से मशीन टूल्स, उन्नत रसायन, नॉर्वे, स्विट्स चॉकलेट और मछली जैसे उत्पादों के लिए।”

## ईवी को प्रायोरीटी सेक्टर लेंडिंग के दायरे में शामिल करने की योजना

नयी दिल्ली/एजेंसी। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को प्राथमिकता वाले क्षेत्र की त्रया श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा, सरकार को ईवी को प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बैंकों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र की त्रया श्रेणी को फिर से तैयार करने पर विचार करेगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार, आरबीआई और अन्य हितधारकों के बीच चर्चा की जाएगी। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को अपने समायोजित शुद्ध बैंक त्रया का 40% प्राथमिकता वाले क्षेत्र को देना अनिवार्य है।



### COMPUCOM Software Limited

कम्प्यूकॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड  
 आईटी: 14-15 इंदीआईडी, सीतापुर, जयपुर-302022 (राजस्थान) (इंडिया)  
 CIN: L72200RJ1995PLC009798 \* फोन: 0141-2770131  
 ई-मेल: investor@compucum.co.in \* वेबसाइट: www.compucum.co.in

### 29वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना, रिमोट ई वोटिंग एवं बुक क्लोजर की सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 29वीं (उन्नीसवीं) वार्षिक साधारण सभा (''एजीएम'') बुधवार, 20 सितम्बर 2023 को सायं 04:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विडियो अल माध्यम (ऑएवीएम) द्वारा एजीएम की सूचना के अनुसार व्यवसाय को लेन देन करने के लिए आयोजित की जावेगी।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ उभरते प्रस्तावित प्रस्तावों को निर्धारित करने वाली एजीएम की सूचना मिनीस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (एमसीए) द्वारा जारी परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 08.04.2020, 17/2020 दिनांकित 13.04.2020, 20/2020 दिनांकित 05.05.2020, 02/2021 दिनांकित 13.01.2021, 19/2021 दिनांकित 08.12.2021, 21/2021 दिनांकित 14.12.2021, 02/2022 दिनांकित 05.05.2022 तथा 10/2022 दिनांकित 28.12.2022 एवं संबन्धी संकलन नं० SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांकित 12.05.2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांकित 15.01.2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांकित 13.05.2022 तथा SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/2023/4, दिनांकित 05.01.2023 भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी (इसके बाद सभी परिपत्रों को सामूहिक रूप से 'परिपत्र' कहा जाएगा) के अनुसरण में 28 अगस्त, 2023 को इलेक्ट्रॉनिक मोड से उन सदस्यों को भेज दी गई है जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास 25 अगस्त, 2023 को पंजीकृत थे। यह नोटिस एवं उक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट <https://compucum.co.in/mdocs-posts/annual-report-2022-23/> एवं स्टॉक एक्सचेंज की की वेबसाइट बीएसई लिमिटेड [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इण्डिया लिमिटेड [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड [www.cse-india.com](http://www.cse-india.com) एवं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इण्डिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर भी उपलब्ध है। सदस्यों को किसी प्रकार की भौतिक प्रतियां नहीं भेजी गई हैं। उक्त दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर किसी भी कार्य दिवस में निरीक्षण हेतु प्राप्त: 11:30 से 12:30 बजे तक 29वीं एजीएम की तारीख तक देखे जा सकते हैं। कंपनी ने 28 अगस्त, 2023 को वार्षिक रिपोर्ट भी भेज दी है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 42 के तहत कंपनी 29वीं एजीएम को उद्देश्य से व 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए घोषित लाभों पाने के अधिकार को तय करने के लिए कंपनी के सदस्यों का रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर बुक्स गुरुवार 14 सितम्बर, 2023 से बुधवार 20 सितम्बर, 2023 तक (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 के नियम 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ), 2015 (''सेबी एलआइओआर विनियम'') के विनियम 44 तथा इट्टीयूटी ऑफ कंपनी सेकंड्री इण्डिया द्वारा जारी किये गये सेकंडरीयल स्टैंडर्ड ऑफ जर्नल मीटिंग्स (एएस-2) के अनुसरण में, कंपनी अपने सभी सदस्यों को 29वीं एजीएम में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना मतदान करने के लिए रिमोट ई-वोटिंग एवं ई-वोटिंग सुविधा दे रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान व एजीएम के दिन ई-वोटिंग के क्रियावन्धन के लिए कंपनी ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग करने हेतु समझौता किया है। वार्षिक बैठक के दौरान रिमोट ई-वोटिंग के जरिए जो सदस्य वोट देना चाहते हैं उनसे निवेदन है कि वह सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस इंडिया लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) के ई-वोटिंग सिस्टम में शेयरहोल्डर्स/मैमबर लॉगिन इन सेगमेंट में अपना रिमोट ई-वोटिंग यूजर आईडी व पासवर्ड का उपयोग कर लॉगिन करें। यूजर आईडी व पासवर्ड संबंधित दिशा निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गये हैं। ऐसे सदस्य जिसका नाम सदस्य पंजीकृत अथवा डिपॉजिटरी द्वारा संधारित लाभार्थी स्वाभिमानी पंजीकृत में बुधवार 13 सितम्बर, 2023 अर्थात् कट-ऑफ दिनांक को अंकित होगा, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग का पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दिया है, वे एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

ऐसे सदस्य जो एजीएम के नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है एवं कट-ऑफ दिनांक 13 सितम्बर, 2023 तक शरीर धारण करता है एवं सीडीएसएल तथा इट्टीयूटी ऑफ कंपनी की वेबसाइट यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। अन्यथा कंपनी की वेबसाइट [www.compucum.co.in](http://www.compucum.co.in) पर उपलब्ध एजीएम के नोटिस में बताई गई विस्तृत प्रक्रिया का पालन कर या [helpdesk.evoting@cdsindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com) पर अनुरोध भेजकर या कंपनी के रजिस्ट्रार मैसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड को [admin@mcsregistrars.com](mailto:admin@mcsregistrars.com) पर ई-मेल भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा शनिवार 16 सितम्बर, 2023 को प्रातः 9:00 बजे प्रारम्भ होगी एवं मंगलवार 19 सितम्बर, 2023 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी। दूरस्थ ई-वोटिंग को सीडीएसएल द्वारा उक्त तिथि और समय के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

कंपनी ने एजीएम में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग को जांच करने के लिए सीएस मनोज माहेश्वरी, एफसीएस 3355 प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है और उनके स्थान पर, सीएस प्रियंका अग्रवाल, एफसीएस 11138 प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को वैकल्पिक जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के मामले में सदस्य [helpdesk.evoting@cdsindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com) पर संपर्क कर सकते हैं अथवा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड, ए-विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर पर्ले (पूर्व), मुंबई-400013 को श्री मरबूब रजवानी, प्रबंधक (022-23058543) एवं श्री राकेश दलवी, प्रबंधक (022-23054542) से भी संपर्क कर सकते हैं।

वास्तव कम्प्यूकॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड  
 हस्ता./-  
 स्वाति जैन  
 स्थान : जयपुर  
 दिनांक : 28 अगस्त, 2023  
 कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी (FCS:8728)

### राजस्थान-सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग)

क्रमांक :- एफ 9 ( ) परावि/भण्डार/नीलामी/2023/152 दिनांक :- 21.08.2023

#### नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस विभाग के अनुपयोगी/नकारा एवं अप्रचलित सामान जिसमें कूलर, लोहे एवं लकड़ी की टैबिल, रिवाल्विंग व सादा कुर्सियां, लोहे एवं लकड़ी की रैक इत्यादि सामान जिसका क्रय मूल्य 377508/- रूपये है, की नीलामी दिनांक 05.09.2023 को दोपहर 12.30 बजे की जावेगी। सामान की नीलामी बोली लगाने से पूर्व राशि 7550/- नगद जमा करने होंगे। सामान का निरीक्षण एवं नीलामी की शर्तों का अवलोकन मौके पर किया जा सकता है।

#### कार्यालयाध्यक्ष

अति. आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रथम)

DIPR/C/12280/23

### कार्यालय अधीक्षक उद्यान सार्वजनिक निर्माण विभाग, रामनिवास बाग, जयपुर

क्रमांक :- 379 दिनांक :- 18.08.2023

#### ई-निविदा सूचना संख्या 06/2023-24 प्रकाशन बाबत

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से उपयुक्त श्रेणी के सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान में राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार के अन्तर्गत पेड़-पौधे सप्लाई करने का अनुभव हो एवं निविदा की शर्त संख्या 03 की पालना करते हों। वर्ष 2023-24 हेतु निम्नलिखित कार्य के लिये निर्धारित प्रपत्र में ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। संबंधित पूर्ण विवरण वेबसाइट <http://dipr.rajasthan.gov.in>, <http://eproc.rajasthan.gov.in> एवं <http://sppp.raj.nic.in> पर देखा जा सकता है।

1	निविदा के कार्य का नाम	विभिन्न प्रकार के इंडोर-आउटडोर, गुलाब, पन्सेटिया, सोजनेल फुलवारी एवं बल्व आदि के पेड़-पौधे आपूर्ति करने का कार्य
2	निविदा की अनुमानित राशि	रु. 1499130.00
3	कुल धरोहर राशि (रूपये में)	अनुमानित राशि की 2 प्रतिशत
4	निविदा आवेदन/डाउनलोड करने की तारीख	दिनांक 21.08.2023 प्रातः 9.30 बजे से दिनांक 31.08.2023 को सायं 6.00 बजे तक
5	निविदा के दस्तावेज जमा कराने की तारीख	दिनांक 01.09.2023 दोपहर 2.00 बजे तक
6	निविदा खोलने की तारीख	दिनांक 04.09.2023 को दोपहर 1.00 बजे

(एस.के. चौधरी)

अधीक्षक उद्यान,  
 सा.नि.वि. जयपुर,  
 मो. 9166777598

UBN No. :- PWD2324SLOB10870

DIPR/C/12246/23